

प्रेस नोट दिनांक-27.09.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपहृत/गुमशुदा की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा श्री दुर्गेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में 30नि0 श्री शिवपूजन यादव तथा उनकी टीम द्वारा ग्राम गौरिया से गुम हुए 04 वर्षीय एवं 06 वर्षीय 02 बच्चों को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गौरिया थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट से दो नाबालिग बच्चे नीरज उर्फ गप्पू पुत्र चुन्नू उम्र लगभग 6 वर्ष व बच्चू पुत्र चुन्नू उम्र लगभग 4 वर्ष निवासीगण गौरिया थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट दिनांक 26/09/21 को समय लगभग 5:00 बजे शाम घर से गुम हो गए हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक महोदय द्वारा 30नि0 श्री शिवपूजन यादव, 30नि0 श्री सत्यम पति त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम गठित कर बरामदगी हेतु निर्देश दिए। पुलिस टीम द्वारा अथक परिश्रम करते हुए 01 घंटे में रैपुरा कस्बे की रोड से पैदल जा रहे गुमशुदा बच्चों को सकुशल बरामद कर उनके बड़े पापा चुक्की पुत्र टिरी यादव निवासी गौरिया थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को सकुशल सुपुर्द किया गया। इस प्रकार बच्चों को सकुशल पाकर परिजनों के चेहरों की मुस्कान लौटी एवं उन्होंने पुलिस को धन्यवाद दिया।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया के मार्गदर्शन में 30नि0 श्री फिरोज खान तथा उनके हमराही द्वारा एसटी नंबर 116/16 धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि व 12/14 डीएए एक्ट के वारंटी अभियुक्त उमेश कोल पुत्र कालू कोल निवासी निहीं चिरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. 30नि0 श्री फिरोज खान थाना मानिकपुर
2. आरक्षी पंकज कुमार

(3). 30प्र0 साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से "30प्र0 पुलिस साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग" की आयोजित साइबर अपराध से बचाव एवं जागरूकता की वर्चुअल कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार राय सहित पुलिस कार्यालय जनपद चित्रकूट के पुलिस कर्मियों के साथ साथ समस्त थानों पर अधि0/कर्म0गण द्वारा नियमित रूप से प्रतिभाग किया जा रहा।

(4). आज दिनांक 27.09.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले फरियादियों को बताया गया कि आप अपनी शिकायत जनसुनवाई आपके द्वार के तहत मो0नं0 8810747614 पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप लोगों को दूर दराज से यहां तक नहीं आना पड़ेगा, आपकी शिकायत वीडियो कॉलिंग पर ही सुन ली जायेगी तथा निस्तारण कराया जायेगा, जिससे आप लोगों को समय की तथा आर्थिक बचत होगी।

इस दौरान महोदय द्वारा जनसुनवाई आपके द्वार के तहत वीडियो कॉलिंग से प्राप्त शिकायतों को भी सुना गया एवं उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

(5). आज दिनांक-27.09.2021 को पुलिस लाइन चित्रकूट में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह की उपस्थिति में कोविड-19 वैक्सीनेशन कैम्प का आयोजन किया गया। जिसमें पुलिसकर्मियों एवं रिट्रूट आरक्षियों को द्वितीय डोज लगाया गया।

इस दौरान 30नि0(एपी) अब्दुल कदीर, प्रभारी आरटीसी श्री सुखदेव एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(6). आज दिनांक-27.09.2021 को प्रस्तावित भारत बंद के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा कर्वी शहर में भ्रमण कर ट्राफिक चौराहा पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। डियूटी में लगे पुलिस अधि०/कर्मचारीगणों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

इस दौरान ट्राफिक चौराहा कर्वी में क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी, पीआरओ श्री राजीव कुमार सिंह एवं अन्य अधि०/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशम में अपहृत/गुमशुदा की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ के मार्गदर्शन में उ०नि० श्री मेवालाल मौर्या तथा उनकी टीम द्वारा 13 वर्षीय गुमशुदा बालक गयाप्रसाद को सूचना के 02 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय हैं कि कल दिनांक-26.09.2021 को श्रीमती शान्तीदेवी पत्नी बनवारीलाल निवासी बियावल थाना मऊ जनपद चित्रकूट ने सूचना दी गयी कि दिनांक-21.09.2021 को सुबह उसका 13 वर्षीय बालक गयाप्रसाद घर से मऊ आया हुआ था जहां से गायब हो गया है काफी खोजबीन की गयी लेकिन मिल नहीं रहा है। इस सूचना पर थाना मऊ में अभियोग पंजीकृत कर बालक की बरामदगी हेतु उ०नि० श्री मेवालाल के नेतृत्व व टीम गठित की गयी। पुलिस टीम द्वारा अथक परिश्रम करते हुए गुमशुदा बालक को 02 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ०नि० श्री मेवालाल मौर्या थाना मऊ
2. आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार

(8). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान “मिशन शक्ति फेज-3” के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल, विद्यालय एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति फेज-3” अभियान के तहत दिनांक 27.09.2021 को श्री धवल जायसवाल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में जनपद में समस्त थाना क्षेत्रों में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। जिसमें महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति फेज-3” के तहत सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहे, बाजार, कॉलेज, कोचिंग संस्थान व अन्य सार्वजनिक स्थलों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू०पी०-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा के बारे में जानकारीयाँ दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हैल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया।

इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनो से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।